


चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम(2024-28)
वाणिज्य संकाय
कोर्स कॅरिकुलम

खण्ड-अ:परिचय			
पाठ्यक्रम: बैचलर इन कॉमर्स (सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री / ऑनर्स)		सेमेस्टर-प्रथम	सत्र 2024-25
1	कोर्स कोड	सीओएससी-01	
2	कोर्स शीर्षक	लेखांकन के मूल तत्व	
3	कोर्स प्रकार	डिसीप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स(सीओएससी)	
4	पूर्व अपेक्षित (यदि हो)	आवश्यकतानुरूप	
5	कोर्स लर्निंग आउटकम (CLO)	- वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया और तरीकों की व्याख्या करें। - विभिन्न कॉर्पोरेट वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त वित्तीय सिद्धांत और तकनीकों की पहचान करें। - आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की मूलभूत अवधारणाओं को पहचानें और लेखांकन की चुनौतियों को भी पहचान सकते हैं। - पूंजी और राजस्व अवधारणा को वर्गीकृत करें, वित्तीय लेखांकन के बुनियादी सिद्धांतों, अवधारणाओं और परंपराओं को समझें। - फर्म के अंतिम खातों का निर्माण करना और कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को लागू करना।	
6	क्रेडिट महत्व	4 क्रेडिट	क्रेडिट = 15घंटे का अध्ययन/प्रशिक्षण/प्रवेक्षण
7	कुल अंक	अधिकतम पूर्णांक-100 अंक	
उत्तीर्णांक-40			
खण्ड-ब: कोर्स की विषयवस्तु			
कुल अध्यापन कालखंड (01 घंटा प्रति कालखंड)- 60 कालखंड (60घंटे)			
इकाई	प्रसंग (विषय वस्तु)		कालखंड की संख्या
1	लेखांकन:एक परिचय:विकास,परिभाषा, आवश्यकताएँ, उद्देश्य,लेखांकन की शाखाएँ, बुनियादी लेखांकन सिद्धांत, अवधारणा और परंपराएँ, लेखांकन मानक:राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय,भारत में लेखांकन पेशे के जनक का संक्षिप्त इतिहास और योगदान : श्री के.एस.अय्यर (1859-1940)		15
2	लेखांकन लेनदेन:एकल और दोहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली की अवधारणा,मूल अभिलेखों की पुस्तके जर्नल,खाता बही,जर्नल रोकड़ पुस्तक का उपविभाजन (जी.एस.टी. लेनदेन सहित) और परीक्षा सूची,मूल्य ह्रास लेखांकन:मूल्यह्रास ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ,विभिन्न संपत्तियों का मूल्यह्रास.		15
3	अंतिम लेखा:विनिर्माण खाता,व्यापार खाता,लाभ-हानि खाता,स्थिति विवरण विभिन्न प्रावधानों और संचय के साथ समायोजन प्रविष्टियाँ,त्रुटियों का सुधार:त्रुटियों का वर्गीकरण,त्रुटियों की पहचान,उचित खाता, लाभ पर प्रभाव सहित.		15
4	कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली:सैद्धांतिक अनुपयोग एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग (किसी भी लोकप्रिय लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके),व्हाऊचर का निर्माण, लेन-देन की रिकॉर्डिंग,रिपोर्ट तैयार करना,रोकड़ बही,बैंक बही, बहीखाता,परीक्षा सूची(ट्रायल बैलेंस),लाभ-हानि खाता,स्थिति विवरण(बैलेंस सीट) चुनना और किसी कंपनी के खाते को बंद करना,किसी कंपनी के डेटा का बैकअप लेना और पुनर्स्थापित करना.		15
प्रमुख शब्द	लेखांकन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, योगदान,दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, जर्नल, मूल्यह्रास, अंतिम खाते, सुधार, सस्पेंस खाता, कम्प्यूटरीकृत लेखांकन.		

हस्ताक्षर-सदस्य एवं संयोजक (केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-




खंड-सः अध्ययन स्रोत/साधन पाठ्य पुस्तक,संदर्भग्रंथ एवं अन्य अनुशंसित ग्रंथ:- 1.शुक्ला एस.एम.; वित्तीय लेखांकन ; साहित्य भवन प्रकाशन; आगरा।(हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) 2.करीम और खनूजा; वित्तीय लेखांकन; एसबीपीडी पब्लिशिंग हाउस; आगरा।(हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) 3.अग्रवाल और मंगल; वित्तीय लेखांकन यूनिवर्सल प्रकाशन।(हिन्दी माध्यम) नोटः शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के नवीनतम संस्करण का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।		
संदर्भग्रंथः 1.मोंगा जे.आर. आहूजा गिरीश और सहगल अशोकः वित्तीय लेखांकन; मयूर पेपर बैक, नोएडा। 2.शुक्ला एम.सी. शेवाल टी.एस. और गुप्ता, एस.सी.: उन्नत खाते; एस चंद एंड कंपनी, नई दिल्ली। 3.सिंह बी.के. वित्तीय लेखांकन ; विज्डम पब्लिशिंग हाउस, वाराणसी। 4.गुप्ता, आर.एल. और राधास्वामी। एम; वित्तीय लेखांकन मुल्तान चंद एंड संस, नई दिल्ली।		
ऑनलाईन स्रोत:- ई-स्रोत/ई-पुस्तक/ई-पोर्टलः https://indianaccounting.org/econtent book finance. https://onlinecourses.swayam2.ac.in/nou24_cm02/ https://youtu.be/v-djL7SPw4c?si=qRK_dBVZ2lob99EV https://onlinecourses.swayam2.ac.in/aic20_sp60/preview https://youtu.be/v-djL7SPw4c?si=qRK_dBVZ2lob99		
खंड-दः आंकलन और मूल्यांकन		
अनुशंसित सतत् मूल्यांकन प्रविधिः		
पूर्णांक -100 अंक	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) : 30 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE) : 70 अंक	
सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA): (कोर्स शिक्षक द्वारा)	आंतरिक जॉच परीक्षा/प्रश्नोत्तरी परीक्षा(दो): 20+20 कार्यभार/सेमीनार+उपस्थिति:- 10 कुल अंक- 30	दोनों आंतरिक परीक्षा उच्चतर प्राप्तांक+कार्यभार में प्राप्तांक- 30 अंक के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहित किया जावेगा.
अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE)	दो खंड- अ तथा ब खंड-अ:- प्र.01-वस्तुनिष्ठ प्रश्न-10x1=10 अंक, एवं प्र.02- लघुउत्तरीय प्रश्न- 5x4=20 अंक खंड-ब:- वर्णात्मक प्रकार के प्रश्न-2 प्रति इकाई में से 1-1 प्रश्न हल करना-4x10=40 अंक	

केन्द्रीय अध्ययन मंडल):-

10/06/24

10.6.24

Shashi